

## कक्षा-7

### विषय-हिंदी

#### कविता 5 सही समय

##### 1.मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

क. कवि को सही समय का पता करना मुश्किल क्यों लगता है?

उत्तर- कवि को सही समय का पता करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि दीवारों पर टंगी या कलाई पर बंधी घड़ी समय से आगे पीछे होती है।

ख. दीवारों पर टंगी या कलाई पर बंधी घड़ियां कैसे चलती हैं?

उत्तर- दीवारों पर टंगी या कलाई पर बंधी घड़ियां समय से आगे या पीछे चलती हैं।

ग. घंटाघर की घड़ियों को क्या हो गया है?

उत्तर-शहर के घंटाघर की घड़ियां कई दिनों तक बंद पड़ी रहती हैं।

घ. मुड़कर कौन नहीं देखता?

उत्तर- मुड़कर समय नहीं देखता।

##### 2. लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

क घंटाघर की घड़ियों के कई दिनों तक बंद रहने से कवि का क्या तात्पर्य है?

उत्तर- घंटाघर की घड़ियों के कई दिनों तक बंद रहने से कवि का तात्पर्य यह है कि लोग उसकी देखरेख के प्रति सचेत नहीं है। चाबी नहीं पड़ने के कारण घड़ियां बंद रहती है जिससे कवि को समय का पता नहीं चल पाता।

ख. इन दिनों पुलिस लाइन में बजने वाले घंटों की आवाज सुनाई नहीं देती इसमें क्या व्यंग्य छिपा है?

उत्तर- इन दिनों पुलिस लाइन में बजने वाले घंटों की आवाज सुनाई नहीं देती इसमें यह व्यंग्य छिपा है कि वे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं वे हर काम में लापरवाही बरतते हैं, जिससे काम समय पर नहीं होते हैं।

ग. यदि घड़ियां सही चल रही है, फिर भी यह कहना मुश्किल हो गया है की घड़ियां सही समय बता रही हैं?

उत्तर- यदि घड़ियां सही चल रही हैं, फिर भी यह कहना मुश्किल हो गया है घड़ियां सही समय बता रही हैं क्योंकि घड़ियां कभी समय से आगे चलती हैं या समय से पीछे।

ड. अच्छा या बुरा क्या होता है? जीवन कब ठहर जाता है?

उत्तर. अच्छा या बुरा जीवन होता है समय नहीं। चलते-चलते थक जाने पर जीवन ठहर जाता है तथा पीछे मुड़कर बीते जीवन को देखने लगता है।

ड. जीवन से समय आगे क्यों निकल जाता है?

उत्तर- जीवन से समय आगे इसलिए निकल जाता है क्योंकि न वह रुकता है और न पीछे मुड़कर देखता है, निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है।

3. कवितांश ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

क.

उत्तर- 'दरअसल समय समय होता है', से कवि का यह तात्पर्य है कि समय आगे पीछे नहीं होता। समय को बताने वाली घड़ियां आगे या पीछे होती हैं।

ख.

उत्तर-नहीं, समय आगे या पीछे नहीं होता।

ग.

उत्तर- आगे या पीछे जीवन होता है।

घ.

उत्तर. 'एक ही समय में लोग अनेक जीवन जीते हैं',- एक ही समय में कुछ लोग सुख का अनुभव करते हैं, तो अन्य किसी का जीवन संकटों से घिरा होता है।

4.वर्ण विच्छेद



बात सोच की (कोई एक कीजिए)

- समय के प्रति जागरूक रहने से किन-किन कामों में सफलता प्राप्त होती है?
- घड़ी से हम क्या सीख ग्रहण कर सकते हैं?

Language Skills



बात भाषा की

1. निम्नलिखित शब्दों के वर्ण-विच्छेद कीजिए।

क. ज्ञात - ज्ञ + त + आ + न + श  
 ख. घड़ियाँ - घ + ड + आ + य + आ + न + श  
 ग. मुश्किल - म + श + क + ल + आ + न + श  
 घ. अच्छा - अ + च + च + आ + न + श

2. विलोम शब्द लिखिए।

क. अच्छा x बुधा  
 ख. ज्ञात x अज्ञान  
 ग. आगे x पीछे  
 घ. बैधी x सुधी  
 ड. सही x गलत  
 च. शहर x गाँव  
 छ. आसान x मुश्किल  
 ज. जीवन x मरण  
 झ. समय x अस्मय

रचनात्मक अभिव्यक्ति Creative Expression



पाठ-प्रवेश  
 'रक्तदान' महाद  
 में रक्त की कम  
 जानकारी दी ग

(घर का इ  
 मिताली  
 सुप्रिया  
 मिताली  
 सुप्रिया  
 मिताली



